

या

(ग) संक्षिप्त नोट (निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त नोट लिखिए) :

- (i) बजट अधिशेष बनाम घाटा
- (ii) आईएमपीएस और एनईएफटी
- (iii) सुकन्या समृद्धि योजना
- (iv) यूलिप
- (v) मंदी का बाजार
- (vi) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
- (vii) ब्लू-चिप स्टॉक

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3486

I

Unique Paper Code : 2414001006

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Group Prog
(UGCF)

Semester : I – GE

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Define budgeting. Discuss the steps involved in preparing a financial budget.
- (b) Explain the role of surplus budgets in savings and investments. Provide examples

OR

- (c) Discuss the importance of balancing resources and wants in financial planning.

- (d) Explain the concept of financial planning for businesses. How does it differ from personal financial planning?

- (क) बजटिंग को परिभाषित कीजिए। वित्तीय बजट तैयार करने में शामिल चरणों पर चर्चा कीजिए।

- (ख) बचत और निवेश में अधिशेष बजट की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उदाहरण दीजिए।

- (b) Define IPO and FPO. Discuss their significance for companies and investors.

OR

- (c) Short Notes (Write short notes on **any 3** of the following):

(i) Budget surplus vs. deficit

(ii) IMPS and NEFT

(iii) Sukanya Samriddhi Yojana

(iv) ULIP

(v) Bear market

(vi) Tax on short-term capital gains

(vii) Blue-chip stocks

- (क) इक्विटी शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। उदाहरण दीजिए।

- (ख) आईपीओ और एफपीओ को परिभाषित कीजिए। कंपनियों और निवेशकों के लिए उनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

(c) What are the benefits of postal life insurance schemes for rural customers?

(d) Compare pension policies offered by private insurers and the government sector.

(क) वित्तीय जोखिमों को कम करने में स्वास्थ्य बीमा के महत्व पर चर्चा कीजिए। सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली योजनाओं की तुलना कीजिए।

(ख) यूलिप की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बीमा और निवेश के संयोजन में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

या

(ग) ग्रामीण ग्राहकों के लिए डाक जीवन बीमा योजनाओं के क्या लाभ हैं?

(घ) निजी बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन पॉलिसियों की तुलना कीजिए।

5. (a) Explain the difference between equity shares and debentures. Provide examples.

या

(ग) वित्तीय नियोजन में संसाधनों और जरूरतों के बीच संतुलन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

(घ) व्यवसायों के लिए वित्तीय नियोजन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन से किस प्रकार भिन्न है?

2. (a) Describe the concept of KYC. Why is it important to maintain a secure banking system?

(b) Explain the features and benefits of credit cards and debit cards. Compare their uses.

OR

(c) What are agricultural loans? Discuss their importance in supporting farmers.

(d) Explain the differences between NEFT, RTGS, and ECS in terms of their functionality.

(क) KYC की अवधारणा का वर्णन कीजिए। सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है?

- (ख) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की विशेषताओं और लाभों की व्याख्या कीजिए। उनके उपयोगों की तुलना कीजिए।

या

- (ग) कृषि ऋण क्या हैं? किसानों को सहायता देने में उनके महत्व पर चर्चा कीजिए।
- (घ) उनकी कार्यक्षमता के संदर्भ में NEFT, RTGS और ECS के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए।

3. (a) Discuss the role of post offices in promoting savings and investments in rural areas.
- (b) Explain the benefits of the senior citizen savings scheme offered by post offices.

OR

- (c) What is India Post Payments Bank? Discuss its objectives and services.
- (d) Compare the financial returns and tax benefits of NSC and PPF.

- (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और निवेश को बढ़ावा देने में डाकघरों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

- (ख) डाकघरों द्वारा दी जाने वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लाभों की व्याख्या कीजिए।

या

- (ग) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है? इसके उद्देश्यों और सेवाओं पर चर्चा कीजिए।

- (घ) एनएससी और पीपीएफ के वित्तीय रिटर्न और कर लाभों की तुलना कीजिए।

4. (a) Discuss the significance of health insurance in mitigating financial risks. Compare plans offered by public and private companies.
- (b) Explain the concept of ULIPs. Discuss their role in combining insurance and investment.

OR